

~~MBN-378~~ 6233

~~NABARD~~

MBN-378

19-20

(6)

Schedule XLV-Form No. 134

ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਤਰਾ 47 ਤੁਰੀ ਪੰਚਾਮਾਸ਼ੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਤਰਾ 47 ਤੁਰੀ ਪੰਚਾਮਾਸ਼ੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਤਰਾ 47 ਤੁਰੀ ਪੰਚਾਮਾਸ਼ੀ ਦੇ

ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ

ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ SUE-DIVISION

MBN-378

Measurement Book

Raj Kumar Singh Raju Const.

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी पुस्तक में मशीन द्वारा अंकित
कुल - 100 (सक सं.) पन्ने हैं जिनमें
श्री अरविन्द कुमार, सहायक
अभियंता आगोष्ठा कार्य विभाग
कार्य 'अपर प्रमंडल' चौबम को
निर्गत किया जाता है।

10.12.19
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
अपर प्रमंडल-गोवरी

Sch. XLV - Form No. 134

प्रमंडल गोवरी DIVISION
अपर प्रमंडल चौबम SUB-DIVISION
Received M.B No. 378 from Page No - 75
to A.E. R.W.D. Woking Sub Division
Chautham.

E.E.
Measurement Book
No. 378
19-20.

Name of officer

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
ABS TRG - of road					
(1) clearing & grubbing all id.					
Qty vide TRB PH-75					
$0.735110 \text{ CF} = 32507 = 86/119 \text{ TS} = 23893.20$					
(2) constn of embankment with approved quality material --- all id.					
TRB. PH-75					
$5866.6 \times 24.52 \text{ m}^3 \text{ CF} = 157.77/27 \text{ TS} = 9252.840$					
(3) load 100mm --- all id.					
Qty vide TRB PH-75					
$3914.6 \times 9.36 \text{ m}^3 \text{ CF} = 219 = 42/27 \text{ TS} = 8589.621$					

(4) constn of GSB GR. H by providing well grading material --- all id.					
Qty vide TRB PH-75					
$7626.625 \text{ m}^3 \text{ CF} = 2743 = 87/27 \text{ TS} = 21475.242$					
(5) P.V. & lay rolling W.D.M Gr --- all id.					
Qty vide TRB PH-76					
$2325.124 \text{ m}^3 \text{ CF} = 1557.6 = 18/27 \text{ TS} = 12029.580$					
(6) P.V. & lay rolling & compacting G.B. 19B GR. 5 --- all id.					
Qty vide TRB PH-76					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					Plt F 627259 08 E
(7) Provide laying boundary					
pit					all in
Qty vide		7.77 B	1.21	76	
		6600.455 m ³	@ F 4030.21	m ³ F 2660544	
(8) P/v & laying filter media					
					all in
		7.77 B	1.21	76	
		1623.535 m ³	@ F 3977.52	m ³ F 647683	
(9) Construct PCC M20 - all in					
Qty vide		7.77 B	1.21	76	
		1703.63 m ³	@ F 7587.95	m ³ F 1292707	
(10) Excavation of foundation					
					all in
		7.77 B	1.21	76	
		3455.725 m ³	@ F 186.12	m ³ F 645599	
(11) Provide local sand filling					
					all in
		7.77 B	1.21	76	
		192.239 m ³	@ F 427.66	m ³ F 8167	
(12) P/v 100A B/E/s in foundation					
Qty vide		7.77 B	1.21	76	
		1870.126 m ³	@ F 253.80	m ³ F 47516	
(13) P/v 100A B/E/s in open foundation					
					all in
		7.77 B	1.21	76	
		250.006 m ³			

Continuation

@ 6506.59/m³ F 162668 7-00

F 11.1552.626 = 00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				P/TK 11158	2629 = 0
(14) 21	PIV 100A B/w in C. 19 (1.9)				
	in structure				
	Qty vide TRA DN-77				
	1973.49 m ² @ F 5828 = 51/m ²				F 10910459 = 0
(15) 22	PIV Brick work (1.9) in				
	C. 19 in substructure				
	Qty vide TRA DN-77				
	1039.077 m ² @ F 5769 = 38/m ²				F 5994778 = 0
(16) 23	PIV PCC/RCC 100 in				
	substructure				

	Qty vide TRA DN-77				
	86.714 m ² @ F 7571 = 08/m ²				F 656514 = 0
(17) 25	Provide RCC in Super				
	structure				
	Qty vide TRA DN-78				
	162.565 m ² @ F 8837 = 21/m ²				F 1415365 = 0
(18) 26	Sft/P. Hyso bay / TRA in				
	structure				
	Qty vide TRA DN-78				
	22.185 m ² @ F 63491 = 25/m ²				F 1408553 = 0
(19) 28	Brick work in C. 19 (1.15)				
	in Parapet				
	TRA DN-78				
	56.88 m ² @ F 5808 = 10/m ²				F 330365 = 0
					F 132666488 = 0

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					1324.664
(20/29) PIV with (134)					
In Bl/ in substructure					
align					
align 17B PN-78					
2044.836 m ² @ F 169 = 38/m ² F 46293					
(21/30) PIV 1.5 mm cement					
Paving align					
align 17B PN-78					
388.80 m ² @ F 38 = 64/m ² F 15023					
(22/30) PIV weep hole align					
17B PN-78					
1217H. @ F 206 = 37/m ² F 251152					
(23/30) PIV 2 mm Primer coat					
align					
17B PN-79					
18690.75 m ² @ F 50 = 13/m ² F 936967					
(24/31) PIV 2 apply of tack coat					
with bitumen emulsion					
align					
17B PN-79					
18690.75 m ² @ F 16 = 28/m ² F 309285					
(25/32) PIV 2 mm thick					
20 mm thick open					
graded primer coat					
17B PN-79					
18690.75 m ² @ F 192 = 60/m ² F 359918					
					1537920016

Continuation

[illegible]

Continuation

25/5/2024

EE